

# Rom

## Chapter 9

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ. οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς  
सत्य कहता-हूँ में मसीह नहीं झूठ-बोलता साक्षी-देती-है मुझे उस  
[G0225](#) [G3004](#) [G1722](#) [G5547](#) [G3756](#) [G5574](#) [G4828](#) [G1473](#) [G3588](#)

συνειδήσεώς μου, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ,  
अन्तरात्मा मेरी में आत्मा पवित्र  
[G4893](#) [G1473](#) [G1722](#) [G4151](#) [G0040](#)

मसीह में मैं सच कह रहा हूँ। मैं झूठ नहीं कहता और मेरी चेतना जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, मेरे साथ मेरी साक्षी देती है,

2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος ὁδύνη τῇ καρδίᾳ μου,  
कि दुख मुझे है बड़ा और निरन्तर पीड़ा में हृदय मेरे  
[G3754](#) [G3077](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3173](#) [G2532](#) [G0088](#) [G3601](#) [G3588](#) [G2588](#) [G1473](#)

कि मुझे गहरा दुःख है और मेरे मन में निरन्तर पीड़ा है।

3 ηὐχόμενον γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτόν, ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν  
चाहता-था क्योंकि शापित होना स्वयं मैं से उस मसीह के-लिए उन  
[G2172](#) [G1063](#) [G0331](#) [G1510](#) [G0846](#) [G1473](#) [G0575](#) [G3588](#) [G5547](#) [G5228](#) [G3588](#)

ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου, κατὰ σάρκα;  
भाइयों मेरे उन सगोत्रों मेरे के-अनुसार शरीर  
[G0080](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4773](#) [G1473](#) [G2596](#) [G4561](#)

काश मैं चाह सकता कि अपने भाई बहनों और दुनियावी सम्बन्धियों के लिए मैं मसीह का शाप अपने ऊपर ले लेता और उससे अलग हो जाता।

4 οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἰοθεσία, καὶ ἡ δόξα, καὶ αἱ  
जो हैं इस्राएली जिनका वह लेपालकपन और वह महिमा और वे  
[G3748](#) [G1510](#) [G2475](#) [G3739](#) [G3588](#) [G5206](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1391](#) [G2532](#) [G3588](#)

διαθήκαι, καὶ ἡ νομοθεσία, καὶ ἡ λατρεία, καὶ αἱ ἐπαγγελίαι;  
वाचाएं और वह व्यवस्था-देना और वह उपासना और वे प्रतिज्ञाएं  
[G1242](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3548](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2999](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1860](#)

जो इस्राएली हैं और जिन्हें परमेश्वर की संपालित संतान होने का अधिकार है, जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर चुके हैं, जो परमेश्वर के करार के भागीदार हैं। जिन्हें मूसा की व्यवस्था, सच्ची उपासना और वचन प्रदान किया गया है।

5 ὧν οἱ πατέρες; καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστός, τὸ κατὰ σάρκα, ὁ  
जिनके वे पूर्वज और से जिनसे वह मसीह उस के-अनुसार शरीर वह  
[G3739](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2532](#) [G1537](#) [G3739](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3588](#) [G2596](#) [G4561](#) [G3588](#)

ὧν ἐπὶ πάντων Θεός, εὐλογητός εἰς τοὺς αἰῶνας! ἀμήν.  
होते-हुए उपर सबों परमेश्वर धन्य में उन युगों आमीन  
[G1510](#) [G1909](#) [G3956](#) [G2316](#) [G2128](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0165](#) [G0281](#)

पुरुखे उन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं और मानव शरीर की दृष्टि से मसीह उन्हीं में पैदा हुआ जो सब का परमेश्वर है और सदा धन्य है! आमीन।

6 Οὐχ οἷον δέ, ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες  
नहीं ऐसा परन्तु कि विफल-हुआ-है वह वचन का परमेश्वर नहीं क्योंकि सब  
[G3756](#) [G3634](#) [G1161](#) [G3754](#) [G1601](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3756](#) [G1063](#) [G3956](#)

οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ.  
जो से इस्राएल वे इस्राएल  
[G3588](#) [G1537](#) [G2474](#) [G3778](#) [G2474](#)

ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया है क्योंकि जो इस्राएल के वंशज हैं, वे सभी इस्राएली नहीं हैं।

7 οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ. πάντες τέκνα; ἀλλ', Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεται  
न कि हैं वंश अब्राहाम-के सब सन्तान परन्तु में इसहाक पुकारी-जाएगी  
[G3761](#) [G3754](#) [G1510](#) [G4690](#) [G0011](#) [G3956](#) [G5043](#) [G0235](#) [G1722](#) [G2464](#) [G2564](#)

σοι σπέρμα.  
तेरी वंश  
[G4771](#) [G4690](#)

और न ही इब्राहीम के वंशज होने के कारण वे सब सचमुच इब्राहीम की संतान हैं। बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा, “तेरे वंशज इसहाक के द्वारा अपनी परम्परा बढ़ाएंगे।”

8 τοῦτ' ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς, ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ; ἀλλὰ  
यह है नहीं वे सन्तान की शरीर ये सन्तान के परमेश्वर परन्तु  
[G3778](#) [G1510](#) [G3756](#) [G3588](#) [G5043](#) [G3588](#) [G4561](#) [G3778](#) [G5043](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0235](#)

τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογιζεται εἰς σπέρμα.  
वे सन्तान की प्रतिज्ञा गिने-जाते-हैं में वंश  
[G3588](#) [G5043](#) [G3588](#) [G1860](#) [G3049](#) [G1519](#) [G4690](#)

अर्थात् यह नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर शरीर से पैदा होने वाले बच्चे परमेश्वर के वंशज हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन से प्रेरित होने वाले उसके वंशज माने जाते हैं।

9 ἐπαγγελίας γὰρ, ὁ λόγος οὗτος: Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, ἐλεύσομαι,  
प्रतिज्ञा-का क्योंकि वह वचन यह के-अनुसार उस समय इस आऊंगा  
[G1860](#) [G1063](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3778](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2540](#) [G3778](#) [G2064](#)

καὶ ἔσται τῆ Σάρρα υἱός.  
और होगा को सारा पुत्र  
[G2532](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4564](#) [G5207](#)

वचन इस प्रकार कहा गया था: “निश्चित समय पर मैं लौटूँगा और सारा पुत्रवती होगी।”

10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα, ἐξ ἑνὸς κοίτην, ἔχουσα Ἰσαὰκ  
केवल-नहीं केवल परन्तु परन्तु भी रिबेका से एक सम्भोग रखती-हुई इसहाक  
[G3756](#) [G3440](#) [G1161](#) [G0235](#) [G2532](#) [G4479](#) [G1537](#) [G1520](#) [G2845](#) [G2192](#) [G2464](#)

τοῦ πατρὸς ἡμῶν,  
के पिता हमारे  
[G3588](#) [G3962](#) [G1473](#)

इतना ही नहीं जब रिबेका भी एक व्यक्ति, हमारे पूर्व पिता इसहाक से गर्भवती हुई

11 μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον, ἵνα  
अभी-नहीं क्योंकि जन्मे-हुए न किए-हुए कुछ भला या बुरा ताकि  
[G3380](#) [G1063](#) [G1080](#) [G3366](#) [G4238](#) [G5100](#) [G0018](#) [G2228](#) [G5337](#) [G2443](#)

ἢ, κατ' ἐκλογὴν, πρόθεσις τοῦ Θεοῦ μένη,  
वह के-अनुसार चुनाव उद्देश्य का परमेश्वर बना-रहे  
[G3588](#) [G2596](#) [G1589](#) [G4286](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3306](#)

तो बेटों के पैदा होने से पहले और उनके कुछ भी भला बुरा करने से पहले कहा गया था जिससे परमेश्वर का वह प्रयोजन सिद्ध हो जो चुनाव से सिद्ध होता है।

12 οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι, Ὁ μείζων  
नहीं से कर्मों परन्तु से उस बुलाने-वाले कहा-गया उससे कि वह बड़ा  
[G3756](#) [G1537](#) [G2041](#) [G0235](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2564](#) [G2046](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3588](#) [G3173](#)

δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι.  
सेवा-करेगा की छोटे  
[G1398](#) [G3588](#) [G1640](#)

और जो व्यक्ति के कर्मों पर नहीं टिका बल्कि उस परमेश्वर पर टिका है जो बुलाने वाला है। रिबका से कहा गया, “बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवा करेगा।”

- 13 καθώς γέγραπται, Τὸν Ἰακώβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἥσαῦ ἐμίσησα.  
जैसा लिखा-है उसको याकूब प्रेम-किया उससे परन्तु एसाव घृणा-किया  
[G2531](#) [G1125](#) [G3588](#) [G2384](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2269](#) [G3404](#)

शास्त्र कहता है: “मैंने याकूब को चुना और इसाऊ को नकार दिया।”

- 14 Τί οὖν ἐροῦμεν? μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ? μὴ γένοιτο!  
क्या अतः कहें क्या अन्याय पास के परमेश्वर कदापि नहीं  
[G5101](#) [G3767](#) [G2046](#) [G3361](#) [G0093](#) [G3844](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3361](#) [G1096](#)

तो फिर हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अन्यायी है?

- 15 τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἄν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν  
को मूसा क्योंकि कहता-है दया-करूंगा जिसपर भी दया-करता-हूँ और तरस-खाऊंगा जिसपर  
[G3588](#) [G3475](#) [G1063](#) [G3004](#) [G1653](#) [G3739](#) [G0302](#) [G1653](#) [G2532](#) [G3627](#) [G3739](#)

ἄν οἰκτίρω.  
भी तरस-खाता-हूँ  
[G0302](#) [G3627](#)

निश्चय ही नहीं! क्योंकि उसने मूसा से कहा था, “मैं जिस किसी पर भी दया करने की सोचूँगा, दया दिखाऊँगा। और जिस किसी पर भी अनुग्रह करना चाहूँगा, अनुग्रह करूँगा।”

- 16 ἄρα οὖν, οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος  
इसलिए अतः नहीं के चाहने-वाले न के दौड़ने-वाले परन्तु के दया-करने-वाले  
[G0686](#) [G3767](#) [G3756](#) [G3588](#) [G2309](#) [G3761](#) [G3588](#) [G5143](#) [G0235](#) [G3588](#) [G1653](#)

Θεοῦ.  
परमेश्वर  
[G2316](#)

इसलिए न तो यह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है और न किसी की दौड़ धूप पर बल्कि दयालु परमेश्वर पर निर्भर करता है।

- 17 λέγει γὰρ ἡ γραφή τῷ Φαραῶ, ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε,  
कहता-है क्योंकि वह शास्त्र को फिरौन कि के-लिए इसी इस खड़ा-किया तुझे  
[G3004](#) [G1063](#) [G3588](#) [G1124](#) [G3588](#) [G5328](#) [G3754](#) [G1519](#) [G0846](#) [G3778](#) [G1825](#) [G4771](#)

ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγεῖλῃ τὸ  
ताकि दिखाऊँ मैं तुझमें उस सामर्थ्य मेरा और ताकि प्रचारित-हो वह  
[G3704](#) [G1731](#) [G1722](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1411](#) [G1473](#) [G2532](#) [G3704](#) [G1229](#) [G3588](#)

ὄνομά μου, ἐν πάσῃ τῇ γῆ.  
नाम मेरा मैं सारी उस पृथ्वी  
[G3686](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1093](#)

क्योंकि शास्त्र में परमेश्वर ने फिरौन से कहा था, “मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया था कि मैं अपनी शक्ति तुझ में दिखा सकूँ। और मेरा नाम समूची धरती पर घोषित किया जाये।”

- 18 ἄρα οὖν ὃν θέλει, ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει, σκληρύνει.  
इसलिए अतः जिसपर चाहता-है दया-करता-है जिसपर परन्तु चाहता-है कठोर-करता-है  
[G0686](#) [G3767](#) [G3739](#) [G2309](#) [G1653](#) [G3739](#) [G1161](#) [G2309](#) [G4645](#)

सो परमेश्वर जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है कठोर बना देता है।

19 Ἐρεῖς μοι οὖν, τί <οὖν> ἔτι μέμφεται? τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ,  
 कहेगा मुझसे अतः क्या अतः अभी-भी दोष-लगाता-है क्योंकि-उस क्योंकि इच्छा उसकी  
[G2046](#) [G1473](#) [G3767](#) [G5101](#) [G3767](#) [G2089](#) [G3201](#) [G3588](#) [G1063](#) [G1013](#) [G0846](#)

τίς ἀνθέστηκεν?  
 कौन विरोध-कर-सका-है  
[G5101](#) [G0436](#)

तो फिर तू शायद मुझ से कहे, “यदि हमारे कर्मों का नियन्त्रण करने वाला परमेश्वर है तो फिर भी वह उसमें हमारा दोष क्यों समझता है?” आखिरकार उसकी इच्छा का विरोध कौन कर सकता है?

20 ὦ ἄνθρωπε, μενοῦνγε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ?  
 हे मनुष्य बल्कि तू कौन है जो जवाब-देने-वाला को परमेश्वर  
[G5599](#) [G0444](#) [G3304](#) [G4771](#) [G5101](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0470](#) [G3588](#) [G2316](#)

μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα, τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως?  
 क्या कहेगी वह रचना को रचने-वाले क्यों मुझे बनाया ऐसा  
[G3361](#) [G2046](#) [G3588](#) [G4110](#) [G3588](#) [G4111](#) [G5101](#) [G1473](#) [G4160](#) [G3779](#)

मनुष्य तू कौन होता है जो परमेश्वर को उलट कर उत्तर दे? क्या कोई रचना अपने रचने वाले से पूछ सकती है, “तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया?”

21 ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ  
 या नहीं रखता-है अधिकार वह कुम्हार की मिट्टी से उसी उसी  
[G2228](#) [G3756](#) [G2192](#) [G1849](#) [G3588](#) [G2763](#) [G3588](#) [G4081](#) [G1537](#) [G3588](#) [G0846](#)

φυράματος ποιήσαι ὁ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὁ δὲ εἰς ἀτιμίαν?  
 गूँधे-हुए-आटे बनाने-को एक एक-ओर के-लिए आदर बर्तन एक परन्तु के-लिए अनादर  
[G5445](#) [G4160](#) [G3739](#) [G3303](#) [G1519](#) [G5092](#) [G4632](#) [G3739](#) [G1161](#) [G1519](#) [G0819](#)

क्या किसी कुम्हार की मिट्टी पर यह अधिकार नहीं है कि वह किसी एक लौंदे से एक बरतनों विशेष प्रयोजन के लिए और दूसरा हीन प्रयोजन के लिए बनाये?

22 εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργήν, καὶ γνωρίσαι τὸ  
 यदि परन्तु चाहते-हुए वह परमेश्वर दिखाने-को उस क्रोध और जताने-को वह  
[G1487](#) [G1161](#) [G2309](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1731](#) [G3588](#) [G3709](#) [G2532](#) [G1107](#) [G3588](#)

δυνατὸν αὐτοῦ, ἦνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ, σκεύη ὀργῆς, κατηγορημένα  
 शक्तिशाली उसका सहा में बड़ी सहनशीलता बर्तनों-को क्रोध-के तैयार-किए-गए  
[G1415](#) [G0846](#) [G5342](#) [G1722](#) [G4183](#) [G3115](#) [G4632](#) [G3709](#) [G2675](#)

εἰς ἀπώλειαν;  
 के-लिए विनाश  
[G1519](#) [G0684](#)

किन्तु इसमें क्या है यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी शक्ति जताने के लिए उन लोगों की, जो क्रोध के पात्र थे और जिनका विनाश होने को था, बड़े धीरज के साथ सही,

23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ, ἐπὶ σκεύη ἐλέους,  
 और ताकि जताए उस धन की महिमा उसकी पर बर्तनों दया-के  
[G2532](#) [G2443](#) [G1107](#) [G3588](#) [G4149](#) [G3588](#) [G1391](#) [G0846](#) [G1909](#) [G4632](#) [G1656](#)

ἵνα προητοίμασεν εἰς δόξαν,  
 जिन्हें पहले-से-तैयार-किया के-लिए महिमा  
[G3739](#) [G4282](#) [G1519](#) [G1391](#)

उसने उनकी सही ताकि वह उन लोगों के लाभ के लिए जो दया के पात्र थे और जिन्हें उसने अपनी महिमा पाने के लिए बनाया था, उन पर अपनी महिमा प्रकट कर सके।

24 οὐς καὶ ἐκάλεσεν, ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἐξ  
जिन्हें भी बुलाया हमें केवल-नहीं केवल से यहूदियों परन्तु भी से  
[G3739](#) [G2532](#) [G2564](#) [G1473](#) [G3756](#) [G3440](#) [G1537](#) [G2453](#) [G0235](#) [G2532](#) [G1537](#)

ἐθνῶν?  
अन्यजातियों  
[G1484](#)

| अर्थात हम जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया बल्कि गैर यहूदियों में से भी

25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ἰσηε λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαὸν μου, λαὸν μου;  
जैसा भी में उस होशेया कहता-है बुलाऊंगा उसे नहीं लोग मेरे लोग मेरे  
[G5613](#) [G2532](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5617](#) [G3004](#) [G2564](#) [G3588](#) [G3756](#) [G2992](#) [G1473](#) [G2992](#) [G1473](#)

καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην, ἠγαπημένην.  
और उसे नहीं प्रेम-की-गई प्रेम-की-गई  
[G2532](#) [G3588](#) [G3756](#) [G0025](#) [G0025](#)

| जैसा कि होशे की पुस्तक में लिखा है: "जो लोग मेरे नहीं थे उन्हें मैं अपना कहूँगा। और वह स्त्री जो प्रिय नहीं थी मैं उसे प्रिया कहूँगा।"

26 καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὐ ἐρρέθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς,  
और होगा में उस स्थान जहां कहा-गया उनसे नहीं लोग मेरे तुम  
[G2532](#) [G1510](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5117](#) [G3739](#) [G2046](#) [G0846](#) [G3756](#) [G2992](#) [G1473](#) [G4771](#)

ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.  
वहीं पुकारे-जाएंगे पुत्र परमेश्वर-के जीवित  
[G1563](#) [G2564](#) [G5207](#) [G2316](#) [G2198](#)

| और, "वैसा ही घटेगा जैसा उसी भाग में उनसे कहा गया था, 'तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो।' वहीं वे जीवित परमेश्वर की सन्तान कहलाएंगे।"

27 Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ἦ ὁ ἀριθμὸς τῶν  
यशायाह परन्तु पुकारता-है के-विषय-में के इस्राएल यदि हो वह गिनती के  
[G2268](#) [G1161](#) [G2896](#) [G5228](#) [G3588](#) [G2474](#) [G1437](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0706](#) [G3588](#)

υἱῶν Ἰσραήλ, ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται.  
पुत्रों इस्राएल-के जैसी वह रेत की समुद्र वह बचा-हुआ बचाया-जाएगा  
[G5207](#) [G2474](#) [G5613](#) [G3588](#) [G0285](#) [G3588](#) [G2281](#) [G3588](#) [G5275](#) [G4982](#)

| और यशायाह इस्राएल के बारे में पुकार कर कहता है: "यद्यपि इस्राएल की सन्तान समुद्र की बालू के कणों के समान असंख्य हैं। तो भी उनमें से केवल थोड़े से ही बच पायेंगे।"

28 λόγον γὰρ, συντελῶν καὶ συντέμνων, ποιήσει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.  
वचन क्योंकि पूरा-करते-हुए और छोटा-करते-हुए करेगा प्रभु पर उस पृथ्वी  
[G3056](#) [G1063](#) [G4931](#) [G2532](#) [G4932](#) [G4160](#) [G2962](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#)

| क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर अपने न्याय को पूरी तरह से और जल्दी ही पूरा करेगा।"

29 καὶ καθὼς προείρηκεν Ἡσαΐας, Εἰ μὴ Κύριος Σαβαώθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν  
और जैसा पहले-कहा यशायाह-ने यदि नहीं प्रभु सबाओत-ने छोड़ा-होता हमें  
[G2532](#) [G2531](#) [G4302](#) [G2268](#) [G1487](#) [G3361](#) [G2962](#) [G4519](#) [G1459](#) [G1473](#)

σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὠμοιώθημεν.  
वंश जैसे सदोम -- ही-गए-होते और जैसे अमोरा -- सदृश-हो-गए-होते  
[G4690](#) [G5613](#) [G4670](#) [G0302](#) [G1096](#) [G2532](#) [G5613](#) [G1116](#) [G0302](#) [G3666](#)

| और जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी: "यदि सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे लिए, वंशज न छोड़ता तो हम सदोम जैसे और अमोरा जैसे ही हो जाते।"

30 τί οὖν ἐροῦμεν? ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην,  
 क्या अतः कहें कि अन्यजातियां जो नहीं पीछा-करने-वाली धार्मिकता  
[G5101](#) [G3767](#) [G2046](#) [G3754](#) [G1484](#) [G3588](#) [G3361](#) [G1377](#) [G1343](#)

κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως;  
 पाई धार्मिकता धार्मिकता परन्तु वह से विश्वास  
[G2638](#) [G1343](#) [G1343](#) [G1161](#) [G3588](#) [G1537](#) [G4102](#)

तो फिर हम क्या कहें? हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अन्य जातियों के लोग जो धार्मिकता की खोज में नहीं थे, उन्होंने धार्मिकता को पा लिया है। वे जो विश्वास के कारण ही धार्मिक ठहराए गए।

31 Ἰσραὴλ δὲ, διώκων νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν.  
 इस्राएल परन्तु पीछा-करते-हुए व्यवस्था धार्मिकता-की तक व्यवस्था नहीं पहुँचा  
[G2474](#) [G1161](#) [G1377](#) [G3551](#) [G1343](#) [G1519](#) [G3551](#) [G3756](#) [G5348](#)

किन्तु इस्राएल के लोगों ने जो ऐसी व्यवस्था पर चलना चाहते थे जो उन्हें धार्मिक ठहराती, उसके अनुसार नहीं जी सके।

32 διὰ τί? ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὡς ἐξ ἔργων. προσέκοψαν τῷ  
 क्यों क्यों क्योंकि नहीं से विश्वास परन्तु जैसे से कर्मों ठोकर-खाई उस  
[G1223](#) [G5101](#) [G3754](#) [G3756](#) [G1537](#) [G4102](#) [G0235](#) [G5613](#) [G1537](#) [G2041](#) [G4350](#) [G3588](#)

λίθῳ τοῦ προσκόμματος,  
 पत्थर-से के ठोकर  
[G3037](#) [G3588](#) [G4348](#)

क्यों नहीं? क्योंकि वे इसका पालन विश्वास से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से कर रहे थे, वे उस चट्टान पर ठोकर खा गये, जो ठोकर दिलाती है।

33 καθὼς γέγραπται, Ἴδου τίθημι ἐν Σιών λίθον προσκόμματος, καὶ πέτραν  
 जैसा लिखा-है देखो रखता-हूँ में सियोन पत्थर ठोकर-का और चट्टान  
[G2531](#) [G1125](#) [G3708](#) [G5087](#) [G1722](#) [G4622](#) [G3037](#) [G4348](#) [G2532](#) [G4073](#)

σκανδάλου; καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ, οὐ κατασχυνηθήσεται.  
 ठोकर-का और जो विश्वास-करने-वाला पर उसपर नहीं लज्जित-होगा  
[G4625](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4100](#) [G1909](#) [G0846](#) [G3756](#) [G2617](#)

जैसा कि शास्त्र कहता है: "देखो, मैं सियोन में एक पत्थर रख रहा हूँ, जो ठोकर दिलाता है और एक चट्टान जो अपराध कराती है। किन्तु वह जो उस में विश्वास करता है, उसे कभी निराश नहीं होना होगा।"